

PRACTICE PAPER (2021-22)
CLASS : XII
SUBJECT: ACCOUNTANCY (055)

Time Allowed : 90 Min.

Maximum Marks : 40

समय : 90 मिनट

अधिकतम अंक - 40

सामान्य निर्देश-

निम्नलिखित निर्देशों को बहुत ध्यान से पढ़ें और उनका सख्ती से पालन करें:

1. इस प्रश्नपत्र में दो भाग I और II शामिल हैं। प्रश्न-पत्र में 55 प्रश्न हैं।
2. प्रत्येक अनुभाग में एक आंतरिक विकल्प प्रदान किया गया है।
 - i. भाग-I में तीन खंड हैं - क, ख और ग। खंड-क में 1 से 18 तक के प्रश्न हैं और खंड-ख में 19 से 36 तक के प्रश्न हैं, आपको दोनों खंडों में से प्रत्येक में कोई भी 15 प्रश्न करने हैं।
 - ii. भाग-I, खंड-ग में 37 से 41 तक के प्रश्न हैं। आपको किन्हीं चार प्रश्नों को करना है।
 - iii. भाग-II में दो खंड हैं - क और ख। खंड-क में 42 से 48 तक के प्रश्न हैं, आपको कोई भी पाँच प्रश्नों को करना है और खंड-ख में 49 से 55 तक के प्रश्न हैं, आपको कोई भी छह प्रश्नों को करना है।
3. सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। कोई नकारात्मक अंकन नहीं है।
4. प्रश्नों के पहले प्रत्येक भाग और उपखंड (खंड) से संबंधित विशिष्ट निर्देश स्पष्ट रूप से उल्लिखित हैं। उम्मीदवारों को उन्हें अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए और उसी के अनुसार प्रयास करना चाहिए।

General Instructions-

Read the following instructions very carefully and strictly follow them:

1. This question paper comprises two PARTS-I and II. There are 55 questions in the question paper.
2. There is an internal choice provided in each Sections.
 - i. Part-I, contains three Sections -A, B and C. Section A has questions from 1 to 18 and Section B has questions from 19 to 36, you have to attempt any 15 questions each in both the sections.
 - ii. Part I, Section C has questions from 37 to 41. You have to attempt any four questions.

- iii. Part II, contains two Sections A and B. Section A has questions from 42 to 48, you have to attempt any five questions and Section B has questions from 49 to 55, you have to attempt any six questions.
3. All questions carry equal marks. There is no negative marking.
4. Specific instructions related to each part and subdivisions (Section) is mentioned clearly before the questions. Candidates should read them thoroughly and attempt accordingly.

भाग-I

भाग-क

Part-I

Section-A

निर्देश:

प्रश्न 1 से 18 में से किन्हीं 15 प्रश्नों का उत्तर दें।

Instructions:

From question number 1 to 18, attempt any 15 questions.

1. लाभ बंटवारे के अनुपात में परिवर्तन के समय, त्याग अनुपात निर्धारित किया जाता है ताकि साझेदार (साझेदारों) साझेदार (साझेदारों) की क्षतिपूर्ति कर सकें।

- (a) (i) पुराने (ii) नए।
(b) (i) नए (ii) पुराने।
(c) (i) लाभ प्राप्त करने वाले (ii) त्याग करने वाले।
(d) (i) नए (ii) त्याग करने वाले।

Sacrificing ratio is determined so that _____ partner(s) can compensate the _____ partner(s) at the time of change in profit sharing ratio.

- (a) (i) Old (ii) New.
(b) (i) New (ii) Old.
(c) (i) Gaining (ii) Sacrificing.
(d) (i) New (ii) Sacrificing.

2. अंश पूंजी का हिस्सा है और यह पूंजी की अधिकतम राशि है जो एक कंपनी जारी कर सकती है।

- (a) आरक्षित पूंजी (b) अभिदत्त पूंजी
(c) निर्गमित पूंजी (d) अधिकृत पूंजी

_____ is the part of Share Capital and it is the maximum amount of capital that a company can issue.

- (a) Reserve Capital (b) Subscribed Capital
(c) Issued Capital (d) Authorised Capital

3. साझेदारी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा/से सत्य है/हैं:

- (i) साझेदारों के बीच लिखित समझौते को साझेदारी संलेख के रूप में जाना जाता है।
(ii) कंपनी (विविध) नियम, 2014 के नियम 10 के तहत केंद्र सरकार द्वारा एक साझेदारी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या 100 निर्धारित की गई है।
(iii) साझेदारी संलेख के अभाव में आहरण पर 6% की दर से ब्याज लिया जाता है।

विकल्प:

- (a) केवल (ii) (b) (i) और (iii)
(c) केवल (i) (d) (ii) और (iii)

Which of the following is /are true with regards to Partnership:

- (i) The written agreement among the partners is known as Partnership Deed.
(ii) The Central Govt. has prescribed maximum number of partners in a partnership firm to be 100 vide Rule 10 of Companies (Misc.) Rules, 2014.
(iii) Interest on Drawings is charged @ 6% in case of absence of Partnership Deed.

Options:

- (a) Only (ii) (b) (i) and (iii)
(c) Only (i) (d) (ii) and (iii)

4. साझेदार के प्रवेश के समय, निम्नलिखित सूचनाओं का क्या प्रभाव होगा?
कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय में शेष राशि ₹ 55,000.
कर्मचारी क्षतिपूर्ति के लिए दावा ₹ 40,000.

- (a) ₹ 15,000 साझेदारों के पूंजी खातों में जमा किए गए।
(b) ₹ 15,000 पुनर्मूल्यांकन खाते में डेबिट किया गया।
(c) ₹ 40,000 पुनर्मूल्यांकन खाते में डेबिट किया गया।
(d) ₹ 15,000 पुनर्मूल्यांकन खाते में जमा किया गया।

At the time of admission of a partner, what will be the effect of the following information?

Balance in Workmen compensation reserve ₹ 55,000.

Claim for workmen compensation ₹ 40,000.

- (a) ₹ 15,000 Credited to the Partners capital Accounts.
(b) ₹ 15,000 Debited to Revaluation Account.
(c) ₹ 40,000 Debited to Revaluation Account.
(d) ₹ 15,000 Credited to Revaluation Account.
5. दूसरी और अंतिम मांग राशि की गणना करें जब आभार लिमिटेड ₹ 100 प्रत्येक के समता अंश 25% प्रीमियम पर निर्गमित करता है जो कि देय है, आवेदन ₹ 50, आवंटन ₹ 30, पहली मांग ₹ 10 है।

- (a) दूसरी और अंतिम मांग ₹ 10 (b) दूसरा और अंतिम मांग ₹ 25
(c) दूसरा और अंतिम मांग ₹ 35 (d) दूसरा और अंतिम मांग ₹ 45

Calculate the amount of second & final call when Aabhar Ltd, issues Equity shares of ₹ 100 each at a premium of 25% payable on Application ₹ 50, On Allotment ₹ 30, On First Call ₹ 10.

- (a) Second & final call ₹ 10.
(b) Second & final call ₹ 25.
(c) Second & final call ₹ 35.
(d) Second & final call ₹ 45.

6. पवन और विकास एक फर्म में साझेदार हैं और 4:3 के अनुपात में लाभ-हानि बाँटते हैं।

तुलन पत्र (उद्धरण)

देनदारियाँ	₹	परिसम्पत्तियाँ	₹
		स्टॉक	2,00,000

यदि तुलन पत्र में परिलक्षित फर्नीचर के मूल्य का 20% कम मूल्यांकन किया गया है नई तुलन पत्र में दिखाए जाने वाले स्टॉक का मूल्य ज्ञात कीजिए:

- (a) ₹ 1,60,000 (b) ₹ 2,00,000
(c) ₹ 2,40,000 (d) ₹ 3,00,000

Pawan and Vikas are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 4:3.

Balance Sheet (Extract)

Liabilities	₹	Assets	₹
		Stock	2,00,000

If the value of Stock reflected in the balance sheet is overvalued by 25%, find out the value of Stock to be shown in the new Balance Sheet:

- (a) 1,60,000. (b) 2,00,000.
(c) 2,40,000. (d) 3,00,000.

7. सीएनबी लिमिटेड ने 20,000 अंशों के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए एक प्रविवरण पत्र जारी किया। 30,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए ओर 25,000 अंशों के आवेदकों को आनुपातिक आवंटन किया गया। यदि सीमा ने 500 शेयरों के लिए आवेदन किया है, तो उसे कितने अंश आवंटित किए गए हैं?

- (a) 800 (b) 600
(c) 400 (d) 200

CNB Ltd, issued a prospectus inviting applications for 20,000 shares. Applications were received for 30,000 shares and pro-rata allotment was made to the applicants of 25,000 shares. If Seema has been applied for 500 shares, how much shares she have been allotted?

- (a) 800 (b) 600
(c) 400 (d) 200

8. साझेदारी फर्म में साझेदार के प्रवेश के समय, एक अलिखित दायित्व के अभिलेखन के कारण होगा:
- मौजूदा साझेदारों को न तो लाभ और न ही हानि।
 - मौजूदा साझेदारों को उनके पुराने लाभ बंटवारे के अनुपात में नुकसान।
 - मौजूदा साझेदारों को उनके त्याग अनुपात में नुकसान।
 - आने वाले साझेदारों को लाभ।

At the time of admission of a partner in the Partnership Firm, recording of an unrecorded Liability will lead to:

- Neither gain nor loss to the existing partners
 - Loss to the existing partners in their old profit sharing ratio.
 - Loss to the existing Partners in their sacrificing ratio.
 - Gain to the incoming partner.
9. R, S और G साझेदार हैं जो 4:2:1 के अनुपात में लाभ बाँटते हैं। साझेदारी समझौते के अनुसार, G को प्रत्येक वर्ष अपने लाभ के हिस्से के रूप में न्यूनतम ₹ 70,000 की राशि प्राप्त करनी है और इस खाते में किसी भी कमी को व्यक्तिगत रूप से R द्वारा वहन किया जाना है। 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए शुद्ध लाभ की राशि 4,20,000 थी। R द्वारा वहन की जाने वाली कमी की मात्रा की गणना करें?
- 40,000
 - 30,000
 - 20,000
 - 10,000

R, S and G are partners sharing profits in the ratio of 4:2:1. According to the partnership agreement, G is to get a minimum amount of ₹ 70,000 as his share of profits every year and any deficiency on this account is to be personally borne by R. The net profit for the year ended 31st March 2021 amounted to 4,20,000. Calculate the amount of deficiency to be borne by R?

- 40,000.
 - 30,000.
 - 20,000.
 - 10,000.
10. नेवल लिमिटेड ने ₹ 10 प्रत्येक के 20,000 समता अंशों की पेशकश की, इनमें से 19,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। आवेदन पर ₹ 3, आबंटन ₹ 4, पहली मांग पर ₹ 2 और दूसरी एवं अन्तिम मांग पर शेष राशि के रूप में देय थी। यदि 1,000 रखने वाला एक अंशधारक दूसरी एवं अन्तिम मांग पर चूक करता है, तो दूसरी एवं अन्तिम मांग पर प्राप्त राशि कितनी है?

- (a) ₹ 19,000 (b) ₹ 18,500
(c) ₹ 18000 (d) ₹ 20,000

Naval Ltd offered 20,000 Equity Shares of 10 each, of these 19,000 shares were subscribed. The amount was payable as ₹ 3 on application, ₹ 4 an allotment, ₹ 2 on First Call and balance on Second and Final call. If a shareholder holding 1,000 shares has defaulted on Second and Final call, what is the amount of money received on Second and Final call?

- (a) ₹ 19,000 (b) ₹ 18,500
(c) ₹ 18000 (d) ₹ 20,000

11. कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, एक कंपनी द्वारा उद्यम इक्विटी (स्वेट इक्विटी) अंश उसके को गैर-नकद प्रतिफल के लिए या किसी भी रूप में जानकारी या कोई मूल्य वर्धन प्रदान करने के लिए, छूट पर जारी किए जाते हैं:

- (a) ग्राहक (b) लेनदारों
(c) सरकार (d) कर्मचारी

As per the Companies Act 2013, Sweat equity shares are issued by a company, to its _____ for non cash consideration or at a discount for providing know how's or any value additions in any form:

- (a) Customers (b) Creditors
(c) Govt. (d) Employees

12. निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए, एमबीबी लिमिटेड कंपनी अपने प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित का उपयोग कर सकती है:

- (a) कंपनी के प्रारंभिक खर्चों को अपलिखित करना।
(b) आंशिक रूप से भुगतान किए गए बोनस शेयर जारी करना।
(c) वर्ष के दौरान हुए नुकसान को अपलिखित करना।
(d) अन्य कंपनियों के शेयरों की खरीद में।

For which of the following purpose, MBB Ltd. company can utilise its Securities Premium Reserve:

- (a) Writing off preliminary expenses of the company.
(b) Issue of partly paid bonus shares.
(c) Writing off Losses incurred during the year.
(d) In purchasing of shares of other companies.

13. फर्म द्वारा अर्जित औसत लाभ ₹ 2,40,000 है। व्यवसाय में निवेश की गई पूंजी ₹ 21,00,000 है और प्रतिफल की सामान्य दर 10% है। चार गुना अधिलाभ के आधार पर, फर्म की ख्याति का मूल्य क्या है?

- (a) ₹ 90,000 (b) ₹ 1,20,000
(c) ₹ 1,50,000 (d) ₹ 1,80,000

Average profit earned by the firm is ₹ 2,40,000. Capital invested in the business is ₹ 21,00,000 and normal rate of return is 10%. What is the value of Goodwill of the firm on the basis of four times the super profit:

- (a) ₹ 90,000. (b) ₹ 1,20,000. .
(c) ₹ 1,50,000. (d) ₹ 1,80,000.

14. निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति किसी भी स्थिति में साझेदारी फर्म में भागीदार नहीं बन सकता है?

- (i) नाबालिग
(ii) विकृत दिमाग के व्यक्ति
(iii) किसी भी कानून द्वारा अयोग्य व्यक्ति

विकल्प :

- (a) केवल (i) (b) (i) और (ii)
(c) (ii) और (iii) (d) (i) और (iii)

Which of the following persons cannot become a partner in partnership firm in any condition?

- (i) Minor
(ii) Persons of unsound mind
(iii) Persons disqualified by any law

Options:

- (a) Only (i). (b) (i) and (ii).
(c) (ii) and (iii). (d) (i) and (iii).

15. 31 मार्च, 2020 को निवेश उतार-चढ़ाव संचय ₹ 18,000 है और निवेश (लागत पर) ₹ 2,00,000 है। नए साझेदार के प्रवेश के समय, पुनर्मूल्यांकन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यदि निवेश का बाजार मूल्य ₹ 2,18,000 दिया गया है:

- (a) पुनर्मूल्यांकन खाते में ₹ 18,000 रुपये क्रेडिट किए जाएंगे।
- (b) पुनर्मूल्यांकन खाते में ₹ 18,000 रुपये डेबिट किए जाएंगे।
- (c) पुनर्मूल्यांकन खाते में ₹ 20,000 रुपये क्रेडिट किए जाएंगे।
- (d) पुनर्मूल्यांकन खाते में ₹ 20,000 रुपये डेबिट किया जाएगा।

Investment Fluctuation Reserve is ₹ 18,000 and Investment (at Cost) is ₹ 2,00,000 as on 31st March, 2020. At the time of admission of a new partner, what will be the effect on Revaluation, if market value of investment is given at ₹ 2,18,000:

- (a) Revaluation A/c will be credited with ₹ 18,000.
- (b) Revaluation A/c will be debited with ₹ 18,000.
- (c) Revaluation A/c will be credited with ₹ 20,000.
- (d) Revaluation A/c will be debited with ₹ 20,000.

16. नीरव, साहित और गौतम 3:3:2 के अनुपात में साझेदार हैं। यदि वर्ष के अंत में नीरव के लाभ का हिस्सा ₹ 3,00,000 हो जाता है, तो गौतम के लाभ का हिस्सा क्या होगा?

- (a) ₹ 8,00,000
- (b) ₹ 3,50,000
- (c) ₹ 2,00,000
- (d) ₹ 1,00,000

Nirav, Sahil and Gautam are partners in the ratio of 3:3:2. If Nirav's share of profit at the end of the year amounted to 3,00,000, what will be Gautam's share of profits? -

- (a) ₹ 8,00,000.
- (b) ₹ 3,00,000.
- (c) ₹ 2,00,000.
- (d) ₹ 1,00,000.

17. A और B साझेदार थे जो लाभ और हानि को 4:3 के अनुपात में बाँटते थे। 1 अप्रैल, 2021 को उन्होंने C को एक नए साझेदार के रूप में स्वीकार किया और नया अनुपात 3:3:1 के रूप में तय किया गया। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन ₹

7,00,000 किया गया। C ख्याति प्रीमियम के अपने आवश्यक हिस्से को नकद में लाया। ख्याति में C का हिस्सा A और B के पूंजी खाते में जमा किया जाएगा :

(a) ₹

भाग-I
खंड-ख
Part-I
Section-B

निर्देश:

प्रश्न 19 से 36 में से किन्हीं 15 प्रश्नों का उत्तर दें।

Instructions:

From question number 19 to 36, attempt any 15 questions.

19. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया गया है।

अभिकथन (A) : साझेदारों द्वारा ऋण पर ब्याज लाभ और हानि खाते में दिखा गया है।

कारण (R) : साझेदारों द्वारा ऋण पर ब्याज तभी दिया जाता है जब साझेदारी फर्म लाभ कमाती है।

उपरोक्त कथन के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

विकल्प:

- (a) (A) सही है, लेकिन (R) गलत है।
- (b) दोनों (A) और (R) सही है।
- (c) (A) गलत है, लेकिन (R) सही है।
- (d) दोनों (A) और (R) गलत है।

Given below are two statements, one labelled as Assertion (A) and the other labelled as Reason (R)

Assertion (A) : Interest on Loan by Partner is shown in Profit & Loss A/c.

Reason (R) : Interest on Loan by Partner is given only when Partnership Firm earns the profits.

In the context of the above statements, which one of the following is correct?

Options:

- (a) (A) is correct, but (R) is wrong.

- (b) Both (A) and (R) are correct.
 (c) (A) is wrong, but (R) is correct.
 (d) Both (A) and (R) are wrong.

20. नैशा और आयशा एक फर्म में साझेदार थे। उनकी तुलन पत्र ने स्टॉक ₹ 1,20,000, फर्नीचर ₹ 80,000 और विविध लेनदार ₹ 40,000 पर दिखाया गया। हर्षिता को नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया गया। स्टॉक का ₹ 1,30,000 पर और फर्नीचर का ₹ 70,000 पर पुनर्मूल्यांकन किया गया और ₹ 20,000 के लेनदारों के दावा किए जाने की संभावना नहीं है। पुनर्मूल्यांकन पर लाभ में आयशा का हिस्सा होगा:

- (a) ₹ 20,000 (b) ₹ 15,000
 (c) ₹ 10,000 (d) ₹ 5,000

Naisha and Aisha were partners in a firm. Their Balance Sheet showed Stock at ₹ 1,20,000; Furniture at ₹ 80,000 and Sundry Creditors at ₹ 40,000. Harshita was admitted as a new partner. Stock was revalued at ₹ 1,30,000, Furniture ₹ 70,000 and Creditors of ₹ 20,000 are not likely to be claimed. Share of Aisha in profit on revaluation will be:

- (a) ₹ 20,000 (b) ₹ 15,000
 (c) ₹ 10,000 (d) ₹ 10,000

21. भूमि और प्रिया 4:1 के अनुपात में लाभ और हानि साझेदार बांटने वाले साझेदार थे। रश्मि को लाभ में 1/5 भाग के लिए प्रवेश किया गया, लेकिन वह अपने हिस्से के ख्याति के अंश को नकद में लाने में असमर्थ था। ख्याति अंश के लिए दर्ज की गई, रोजनामचा प्रविष्टि नीचे दी गई है:

दिनांक	विवरण	एल. एफ.	Dr. (₹)	Cr. (₹)
	रश्मि का चालू खातानाम		30,000	
	भूमि के पूंजी खाता से			24,000
	प्रिया के पूंजी खाता से			6,000
	(रश्मि के प्रवेश पर ख्याति प्रीमियम का समायोजन)			

भूमि, प्रिया और रश्मि का नया लाभ-बंटवारा अनुपात होगा

- (a) 3:1:1 (b) 16:4:5
(c) 16:4:1 (d) 8:2:1

Bhumi and Priya were partners sharing profits and losses in the ratio of 4:1. Rashmi was admitted for 1/5th share in the profit but was unable to bring his share of goodwill premium in cash. The Journal entry recorded for goodwill premium is given below:

Date	Particular	L.F.	Dr. (₹)	Cr. (₹)
	Rashmi's Current A/c ... Dr		30,000	
	To Bhumi's Capital A/c			24,000
	To Priya's Capital A/c			6,000
	(Adjustment of goodwill premium on Rashmi's Admission)			

The new profit-sharing ratio of Bhumi, Priya and Rashmi will be

- (a) 3:1:1 (b) 16:4:5
(c) 16:4:1 (d) 8:2:1

22. राकेश और सचिन साझेदार हैं और 4:1 के अनुपात में लाभ बाँटते हैं। विकास को 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश कराया गया था, जिसका 3/4 राकेश ने उपहार में दिया था। शेष का योगदान सचिन ने किया। फर्म की ख्याति का मूल्य ₹ 40,000 है। सचिन के पूंजी खाते में ख्याति के लिए कितनी राशि जमा की जाएगी?

- (a) ₹ 2,500 (b) ₹ 7,500
(c) ₹ 10,000 (d) ₹ 30,000

Rakesh and Sachin are partners sharing profits in the ratio of 4:1. Vikas was admitted for 1/4 share of which 3/4 was gifted by Rakesh. The remaining was contributed by Sachin. Goodwill of the firm is valued at ₹ 40,000. How much amount for goodwill will be credited to Sachins Capital account?

- (a) ₹ 2,500. (b) ₹ 7,500.
(c) ₹ 10,000. (d) ₹ 30,000.

23. मोहित, अभय और विकास एक फर्म में साझेदार हैं जो 3:3:1 के अनुपात में लाभ-हानि बाँटते हैं। 1 अप्रैल 2021 को, उन्होंने अपने लाभ-बंटवारा अनुपात को 2:2:3 में बदलने का निर्णय लिया। उस तारीख को, लाभ और हानि खाते का डेबिट शेष ₹ 70,000 तुलन पत्र में दिखाई दिया और साझेदारों ने इसके लिए एक समायोजन प्रविष्टि पारित करने का निर्णय लिया।

निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपरोक्त के लिए सही उपचार दर्शाता है?

दिनांक	विवरण	एल. एफ.	Dr. (₹)	Cr. (₹)
(a)	विकास का पूंजी खाता ... नाम मोहित के पूंजी खाता से अभय के पूंजी खाता से (समायोजन प्रविष्टि उत्तीर्ण होने के कारण)		20,000	10,000 10,000
(b)	विकास का पूंजी खाता ... नाम मोहित के पूंजी खाता से अभय के पूंजी खाता से (समायोजन प्रविष्टि उत्तीर्ण होने के कारण)		20,000	15,000 5,000
(c)	मोहित का पूंजी खाता ... नाम अभय का पूंजी खाता ... नाम विकास के पूंजी खाता से (समायोजन प्रविष्टि उत्तीर्ण होने के कारण)		15,000 5,000	20,000
(d)	मोहित का पूंजी खाता ... नाम अभय का पूंजी खाता ... नाम विकास के पूंजी खाता से (समायोजन प्रविष्टि उत्तीर्ण होने के कारण)		10,000 10,000	20,000

Mohit, Abhay and Vikas are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:3:1. On 1st April 2021, they decided to change their profit-sharing, ratio to 2:2:3. On that date, debit balance of Profit and Loss A/c ₹ 70,000 appeared in the balance sheet and partners decided to pass an adjusting entry for it.

Which of the following option represents the correct treatment for the above?

Date	Particulars	L.F.	Dr. (₹)	Cr. (₹)
(a)	Vikas's Capital A/c ...Dr To Mohit's Capital A/c To Abhay's Capital A/c (Being adjustment entry passed)		20,000	10,000 10,000
(b)	Vikas's Capital A/c ...Dr To Mohit's Capital A/c To Abhay's Capital A/c (Being adjustment entry passed)		20,000	15,000 5,000
(c)	Mohit's Capital A/c ...Dr Abhay's Capital A/c ...Dr To Vikas's Capital A/c (Being adjustment entry passed)		15,000 5,000	20,000
(d)	Mohit's Capital A/c ...Dr Abhay's Capital A/c ...Dr To Vikas's Capital A/c (Being adjustment entry passed)		10,000 10,000	20,000

24. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया गया है।

अभिकथन (A) : एक साझेदार के प्रवेश के समय संचित लाभ और हानि को पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

कारण (R) : ये संचित लाभ नए साझेदार के प्रवेश से पहले अर्जित लाभ या हानियाँ हैं।

उपरोक्त दो कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

कोड:

- (a) दोनों (A) और (R) सही हैं और (R) (A) का सही कारण है।
- (b) दोनों (A) और (R) सही हैं लेकिन (R) (A) का सही कारण नहीं है।
- (c) केवल (R) सही है।
- (d) दोनों (A) और (R) गलत है।

Given below are two statements, one labelled as Assertion (A) and the other labelled as Reason (R):

Assertion (A) : Accumulated profits and Losses are transferred to Old Partners' Capital A/cs, at the time of Admission of a partner.

Reason (R) : These Accumulated Profits are earned or Losses incurred before the admission of new partner.

In the context of the above statements, which one of the following is correct?

Codes:

- (a) Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct reason of (A).
 - (b) Both (A) and (R) are correct but (R) is not the correct reason of (A).
 - (c) Only (R) is correct.
 - (d) Both (A) and (R) are wrong.
25. VBT लिमिटेड ने ₹ 10 प्रत्येक के 2,000 अंशों का (पूर्णतः याचित) हरण कर लिया, जिस पर केवल ₹ 3 की आवेदन राशि का भुगतान किया गया है। इनमें से 500 अंशों को फिर से जारी किया गया और ₹ 500 को पूंजी आरक्षित में स्थानांतरित कर दिया गया। उस दर की गणना करें जिस पर इन अंशों को फिर से जारी किया गया था।
- (a) ₹ 10 प्रति शेयर
 - (b) ₹ 9 प्रति शेयर
 - (c) ₹ 8 प्रति शेयर
 - (d) ₹ 7 प्रति शेयर

VBT Ltd forfeited 2,000 shares of ₹ 10 each, fully called up, on which application money of ₹ 3 has been paid. Out of these 500 shares were reissued and 500 has been transferred to capital reserve. Calculate the rate at which these shares were reissued.

- (a) ₹ 10 Per share (b) ₹ 9 Per share
(c) ₹ 8 Per share (d) ₹ 7 Per share

26. अमर, संजय और राजेश साझेदार हैं, उनकी साझेदारी संलेख में 6% प्रतिवर्ष की दर से आहरण पर ब्याज का प्रावधान है। वर्ष के दौरान, राजेश ने प्रत्येक माह के अंत में एक निश्चित राशि निकाली और वर्ष के अंत में आहरण पर उसका ब्याज ₹ 6,600 था। उसके मासिक आहरण की राशि कितनी थी?

- (a) ₹ 10,000 (b) ₹ 20,000
(c) ₹ 40,000 (d) ₹ 80,000

Amar, Sanjay and Rajesh are partners, their partnership deed provides for interest on drawings at 6% per annum. Rajesh withdrew a fixed amount in the end of every month, during the year and his interest on drawings amounted to ₹ 6,600 at the end of the year. What was the amount of his monthly drawings?

- (a) ₹ 10,000. (b) ₹ 20,000.
(c) ₹ 40,000. (d) ₹ 80,000.

27. मेहर और प्रिया साझेदार हैं और 3:1 के अनुपात में बाँटते हैं। 31 मार्च 2021 को फर्म का शुद्ध लाभ ₹ 4,00,000 है। साझेदारी संलेख में मेहर और प्रिया को क्रमशः ₹ 40,000 और ₹ 30,000 का पूंजी पर ब्याज का प्रावधान है। मेहर इस तरह के कमीशन को चार्ज करने से पहले, शुद्ध विभाज्य लाभ पर 10% की दर से कमीशन की भी हकदार है। मेहर को देय कमीशन क्या होगा?

- (a) ₹ 3,000 (b) ₹ 30,000
(c) ₹ 33,000 (d) ₹ 40,000

Mehar and Priya are partners sharing profit in the ratio 3:1. On 31st March 2021, firms net profit is ₹ 4,00,000. The partnership deed provided interest on capital to Mehar and Priya ₹ 40,000 and ₹ 30,000 respectively. Mehar is also entitled to commission @10% on net divisible profits, before charging such commission. What will be the Commission payable to Mehar?

- (a) ₹ 3,000 (b) ₹ 30,000
(c) ₹ 33,000 (D) ₹ 40,000

28. सुधीर को SVB लिमिटेड द्वारा आनुपातिक आधार पर 400 अंशों को आवंटित किया गया था, जिसने प्रत्येक तीन के लिए दो अंश जारी किए थे। उसने ₹ 4 प्रति अंश की आवेदन राशि का भुगतान किया था और ₹ 4 प्रति अंश की आवंटन राशि का भुगतान नहीं कर सका। कंपनी द्वारा ₹ 2 प्रति अंश की पहली और अंतिम मांग अभी तक नहीं की गई थी। उनके अंश जब्त कर लिए गए। निम्नलिखित प्रविष्टि पारित की जाएगी:

समता अंश पूंजी खाता नाम	₹X
हरण अंश खाता से		₹Y
समता अंश आवंटन खाता से		₹Z

यहाँ X, Y और Z हैं:

- (a) ₹ 4,000; ₹ 2,000; ₹ 2,000 क्रमशः।
(b) ₹ 3,200; ₹ 2,400; ₹ 800 क्रमशः।
(c) ₹ 1,400; ₹ 1,000; ₹ 400 क्रमशः।
(d) ₹ 4,000; ₹ 3,200; ₹ 800 क्रमशः।

Sudhir had been allotted for 400 shares by SVB Ltd on pro rata basis which had issued two shares for every three applied. He had paid application money of ₹ 4 per share and could not pay allotment money of ₹ 4 per share. First and final call of ₹ 2 per share was not yet made by the company. His shares were forfeited. the following entry will be passed:

Equity Share Capital A/cDr	₹X
To Share Forfeited A/c		₹Y
To Equity Share Allotment A/c		₹Z

Here X, Y and Z are:

- (a) ₹ 4,000; ₹ 2,000; ₹ 2,000 respectively.
(b) ₹ 3,200; ₹ 2,400; ₹ 800 respectively.
(c) ₹ 1,400; ₹ 1,000; ₹ 400 respectively.
(d) ₹ 4,000; ₹ 3,200; ₹ 800 respectively.

29. सुनील, नरेश और जोगिंदर 3:2:1 के अनुपात में क्रमशः ₹ 2,00,000, ₹ 2,00,000 और ₹ 1,00,000 की पूंजी के साथ लाभ और हानि साझा करने वाले साझेदार हैं। साझेदारी संलेश में पूंजी पर 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का प्रावधान है। और वर्ष के लिए लाभ ₹ 25,000 है। वर्ष के दौरान सुनील की पूंजी पर कितना ब्याज दिया जाएगा?

(a) ₹ 18,000

(b) ₹ 12,000

(c) ₹ 10,000

(d) ₹ 8,000

Sunil, Naresh and Joginder are the partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1 with capitals of ₹ 2,00,000, ₹ 2,00,000 and ₹ 1,00,000 respectively. Partnership Deed provides for interest on Capital @ 10% p.a. and profit for the year is ₹ 25,000. How much interest will be provided on Sunil's Capital during the year?

(a) ₹ 18,000

(b) ₹ 12,000

(c) ₹ 10,000

(d) ₹ 8,000

30. 1 अप्रैल, 2021 को, टारगेट लिमिटेड का गठन किया गया और कंपनी ने प्रविवरण पत्र जारी करते हुए ₹

On 1st April, 2021, Target Ltd was formed and company issued prospectus inviting applications for 40,000 equity shares of ₹ 10 each payable as follows:

On Application	:	₹ 4
On Allotment	:	₹ 5
On First and Final Call	:	₹ 1

Application for 39,000 shares were received and company allotted shares to all the applicants. When final call was made, a shareholder of 3,000 shares did not pay the call money.

What amount will be shown under the Heading "Subscribed Capital" in the Balance Sheet of Target Ltd.

- | | |
|----------------|----------------|
| (a) ₹ 3,77,000 | (b) ₹ 3,87,000 |
| (c) ₹ 3,97,000 | (d) ₹ 4,00,000 |

31. ट्रेन्डी लिमिटेड ने ऑक्सीलाइट लिमिटेड का व्यवसाय संभाला और इसके लिए इस प्रकार भुगतान किया

- (i) ₹ 100 के 2,000, 10% अधिमानी अंश, 10% के प्रीमियम पर।
- (ii) ₹ 1,00,000 के समता अंश को सममूल्य पर और
- (iii) ₹ 1,00,000 का चेक।

ऑक्सीलाइट लिमिटेड को देय कुल सहमत क्रय प्रतिफल क्या था?

- | | |
|----------------|----------------|
| (a) ₹ 3,80,000 | (b) ₹ 4,00,000 |
| (c) ₹ 4,20,000 | (d) ₹ 4,40,000 |

Trendy Ltd took over business of Oxylight Ltd and paid for it by

- (i) Issue of 2,000 10% Preference Shares of ₹ 100 each at a premium of 10%
- (ii) Equity Shares of ₹ 1,00,000 at a par and
- (iii) a cheque of ₹ 1,00,000.

What was the total agreed purchase consideration payable to Oxylight Ltd.

- | | |
|-----------------|-----------------|
| (a) ₹ 3,80,000. | (b) ₹ 4,00,000. |
| (c) ₹ 4,20,000. | (d) ₹ 4,40,000. |

32. चेतन और अमित 3:2 के अनुपात में साझेदार हैं। उनकी स्थायी पूंजी क्रमशः ₹ 2,00,000 और ₹ 3,00,000 थी। वर्ष के लिए खातों के बंद होने के बाद यह देखा गया कि वर्ष के दौरान अमित को वेतन गलत तरीके से ₹ 50,000 दिया गया था क्योंकि इसके बारे में कोई समझौता नहीं था। यदि साझेदार उसी के लिए समायोजन प्रविष्टि पारित करने का निर्णय लेते हैं, तो वेतन के खाते पर कितनी राशि का प्रभाव पड़ेगा?

- (a) चेतन के चालू खाते में ₹ 30,000 क्रेडिट किए जाएंगे।
- (b) चेतन के पूंजी खाते में ₹ 30,000 क्रेडिट किए जाएंगे।
- (c) चेतन का चालू खाते में ₹ 30,000 से डेबिट किया जाएगा।
- (d) चेतन के पूंजी खाते में ₹ 30,000 क्रेडिट किए जाएंगे।

Chetan and Amit are partners in the ratio of 3:2. Their fixed Capital were ₹ 2,00,000 and ₹ 3,00,000 respectively. After the closing of accounts for the year it was observed that the Salary to Amit was given wrongly ₹ 50,000 during the year as there was not any agreement regarding it. By what amount will Chetan's account be affected if partners decide to pass an adjustment entry for the same?

- (a) Chetan's Current A/c will be Credited by ₹ 30,000.
- (b) Chetan's Capital A/c will be Credited by ₹ 30,000.
- (c) Chetan's Current A/c will be Debited by ₹ 30,000.
- (d) Chetan's Capital A/c will be credited by ₹ 30,000.

33. तारा लिमिटेड ने ₹ 10 प्रत्येक के 500 अंशों का, जिस पर ₹ 8 की मांग की, हरण कर लिया, जिस पर जॉन ने ₹ 4 की आवेदन राशि और ₹ 3 प्रति अंश की आवंटन राशि का भुगतान किया था। इनमें से, किशोर को ₹ 8 प्रति अंश के हिसाब से 300 अंशों को, पूर्ण प्रदत्त के रूप में, फिर से जारी किया गया था। पूंजी आरक्षित खाते में कितनी राशि स्थानांतरित की गई होगी?

- (a) ₹ 500
- (b) ₹ 1,000
- (c) ₹ 1,500
- (d) ₹ 2,100

Tara Ltd. forfeited 500 shares of ₹ 10 each, ₹ 8 called up, on which John had paid application money ₹ 4 and allotment money of ₹ 3 per share. Out of these, 300 shares were reissued to Kishor as fully paid up for ₹ 8 per share. What is the amount that has been transferred to Capital Reserve Account?

- (a) ₹ 500 (b) ₹ 1,000
(c) ₹ 1,500 (d) ₹ 2,100

34. हैप्पीऑल लिमिटेड ने ₹ 10 प्रत्येक के 1,00,000 समता अंशों की पूंजी जारी की है। अब तक, ₹ 8 अंश की मांग की गई है और 4,000 अंशों पर ₹ 2 प्रति अंश और 6,000 अंश रखने वाले एक अन्य धारक से ₹ 3 प्रति अंश की मांग को छोड़कर पूरी राशि प्राप्त हुई है। कंपनी की तुलन पत्र में 'अभिदत्त लेकिन पूर्ण प्रदत्त नहीं पूंजी' के रूप में प्रदर्शित होने वाली राशि क्या होगी?

- (a) ₹ 7,70,000 (b) ₹ 7,74,000
(c) ₹ 8,04,000 (d) ₹ 9,74,000

Happyall Ltd has Issued Capital of 1,00,000 Equity shares of ₹ 10 each. Till Date, ₹ 8 per share have been called up and the entire amount received except calls of ₹ 2 per share on 4,000 shares and ₹ 3 per share from another holder who held 6,000 shares. What will be amount appearing as 'Subscribed but not fully paid capital' in the balance sheet of the company?

- (a) ₹ 8,70,000 (b) ₹ 7,74,000
(c) ₹ 8,04,000 (d) ₹ 9,74,000

35. M और N 5:3 के अनुपात में साझेदार हैं। P को एक साझेदार के रूप में प्रवेश दिया जाता है और वह M के हिस्से का $\frac{1}{5}$ भाग लेता है। N अपने हिस्से में से P को $\frac{1}{8}$ देता है। नया लाभ बंटवारा अनुपात क्या है?

- (a) 2:1:1 (b) 2:2:1
(c) 4:2:1 (d) 4:1:1

M and N are partners in the ratio of 5:3. P is admitted as a partner and he takes $\frac{1}{5}$ th of M's share. N gives $\frac{1}{8}$ from his share to P. What is the New Profit Sharing Ratio?

- (a) 2:1:1 (b) 2:2:1
(c) 4:2:1 (d) 4:1:1

36. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया गया है:

अभिकथन (A) : सभी हरण अंशों को फिर से जारी करने के बाद, हरण अंशों के खाते में बचा हुआ शेष, सामान्य संचय खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

कारण (R) : हरण किए गए अंशों के पुनर्निर्गम पर लाभ, राजस्व प्रकृति का होता है, इसलिए इसे सामान्य संचय खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

उपरोक्त दो कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है?

- (a) दोनों (A) और (R) सही हैं, लेकिन (R) (A) की सही व्याख्या नहीं है।
- (b) दोनों (A) और (R) सही हैं और (R) (A) की सही व्याख्या है।
- (c) दोनों (A) और (R) गलत हैं।
- (d) (A) सही है, लेकिन (R) गलत है।

Given below are two statements, one labelled as Assertion (A) and the other labelled as Reason (R):

Assertion (A) : After reissue of all the forfeited shares, balance left in Forfeited Shares Account is transferred to General Reserve Account.

Reason (R) : Gain on reissue of forfeited shares is of revenue nature that is why it is transferred to General Reserve A/c.

In the context of the above statements, which one of the following is correct?

- (a) Both (A) and (R) are true, but (R) is not the correct explanation of (A)
- (b) Both (A) and (R) are true and (R) is a correct explanation of (A).
- (c) Both (A) and (R) are false.
- (d) (A) is true, but (R) is false.

Hkkx&

[kaM&x

Part I

Section-C

funsZ'k%

iz'u 37 ls 41 esa ls fdUgha 4 iz'uksa dk mÙkj nsaA

Instructions:

From question number 37 to 41, attempt any 4 questions.

iz'u la[;k 37 vkSj 38 uhpsZhd;kfud fLFkfr ij vk/kfjr gSaA

fgekud fyfeVsM cPpkSa osQ fLFkZuksa osyxh gqbZ gSA oaQiu
50]00]000 osQ vfrfjDr fuos'k }kjk fudR; foLrkj djus dk fu.kZ; fy;k
gSA funs'kdksa us fu.kZ; fy;k gSA fd 20» nh?kZdkfyd ½.k vkSj
'ks"k va'ktkj djosQ foÙkiks f"kr fd;k tk,xkA

daiuh osQ ik"kZn lhekfu;e osQ vuqlkj] lerk va'kks d 100]00]000; osY;
gSA daiuh dh [;kfr dks è;ku esa jSsa va'k 25 iQhlnh osQ vf/ewY; ij
tkjh fd, tk,axsA funs'kdksa us (kafnY) lfr) ,d=k djus osQ fy,
i;kZlr va'k tkjh djus dk fu.kZ; fy;kA

turk osQ fy, çfooj.k i=k tkjh fd;k x;k Fkk] vkSj bl fuxZe dks 20]00]000
'ks;jksa }kjk vf/ vfHknku fd;k x;k gSA] Esn ds i=k tkjh fd, x, FksA
vkosnu ij gh lkjh jkf'k çklr gks xbZA

uhps fn, x, ç'uksa ds mÙkj bl fopkj djrs gq, nsa fd vkosnu ij iwjh
jkf'k ns; FkhA

Himani Limited is engaged in manufacture of Children toys. The company has decided to expand in foreign market by additional investment of ` 50,00,000. Directors have decided that 20% of this requirement would be financed by raising long term debts and balance by issue of Equity shares.

As per memorandum of association of the company, the face value of Equity shares is ₹ 100 each. Considering the goodwill of the company, these shares would be issued at a premium of 25%. Directors decided to issue sufficient shares to collect the desired amount (including premium).

The prospectus was issued to public, and the issue was oversubscribed by 20,000 shares which were issued letters of regret. All the amount was received on Application itself.

Answer the below mentioned questions considering that the entire amount was payable on application.

What is the total amount collected on application?

37. आवेदन पर एकत्र की गई कुल राशि क्या है?

- | | |
|-----------------|-----------------------------|
| (a) ₹ 75,00,000 | (b) ₹ 65,00,000 |
| (c) ₹ 55,00,000 | (d) उपरोक्त में से कोई नहीं |

What is the total amount collected on application?

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| (a) ₹ 75,00,000 | (b) ₹ 65,00,000 |
| (c) ₹ 55,00,000 | (d) None of the above |
38. हिमानी लिमिटेड द्वारा कितने समता अंशों को जारी करने की पेशकश की गई थी?
- | | |
|-----------------|-----------------|
| (a) 50,000 शेयर | (b) 40,000 शेयर |
| (c) 32,000 शेयर | (d) 22,000 शेयर |

How many Equity shares were offered for issue by Himani Ltd?

- | | |
|--------------------|--------------------|
| (a) 50,000 shares. | (b) 40,000 shares. |
| (c) 32,000 shares. | (d) 22,000 shares. |

प्रश्न संख्या 39, 40 और 41 नीचे दी गई काल्पनिक स्थिति पर आधारित हैं।

1 जुलाई 2020 को, विनय और मनीष ने डिजिटल मोड में शिक्षकों के ऑनलाइन ट्यूटोरियल बेचने के लिए “ट्यूटर्स” के नाम से अपनी साझेदारी फर्म शुरू की। विनय और मनीष ने क्रमशः ₹ 6,00,000/- और ₹ 3,00,000/- पूंजी के रूप में निवेश करने का निर्णय लिया। 31 मार्च 2021 को पुस्तकें बंद कर दी गईं, जिस तारीख को फर्म द्वारा निम्नलिखित जानकारी प्रदान की गई:

विवरण	राशि (₹)
शुद्ध लाभ	5,00,000
विनय को वेतन (शुल्क के रूप में)	20,000 प्रति माह
पूंजी पर ब्याज	10% प्रति वर्ष
मनीष को कमीशन	शुद्ध बिक्री का 10% जो वर्ष के दौरान 2,00,000 थी।

चूंकि वे एक-दूसरे के अच्छे दोस्त थे, इसलिए उपरोक्त के अलावा, उनके बीच कोई स्पष्ट सहमति नहीं थी।

Question no.'s 39, 40 and 41 are based on the hypothetical situation given below.

On 1st July 2020, Viney and Manish started their Partnership Firm in the name of Tutors for selling online tutorials of teachers in digital mode. Viney and Manish decided to invest ₹ 6,00,000/- and ₹ 300,000/- respectively as capital. The books were closed on 31st March 2021, on which date the following information was provided by the firm:

Particulars	Amount (₹)
Net Profit	5,00,000
Salary to Viney (As a Charge)	20,000 per month
Interest on Capital	10% p.a.
Commission to Manish	10% of net sales which was 2,00,000 during the year.

Since they were good friends of each other, they were not having any explicit agreement in place except the above.

39. लाभ एवं हानि विनियोग खाते को हस्तांतरित किए जाने वाले लाभ की राशि की गणना करें -

- (a) लाभ ₹ 3,20,000 (b) लाभ ₹ 2,20,000
(c) लाभ ₹ 1,00,000 (d) लाभ ₹ 40,000

Calculate the amount of profits to be transferred to Profit and Loss Appropriation Account. -

- (a) Profit ₹ 3,20,000 (b) Profit ₹ 2,20,000
(c) Profit ₹ 1,00,000 (d) Profit ₹ 40,000

40. मनीष के पूंजी खाते में कितना लाभ अंतरित किया जाएगा:

(a) ₹ 2,15,250 (b) ₹ 1,50,000

(c) ₹ 1,16,250 (d) ₹ 1,05,000

How much profit will be transferred to Manish's Capital A/c:

(a) ₹ 2,15,250 (b) ₹ 1,50,000

(c) ₹ 1,16,250 (d) ₹ 1,05,000

41. 01 अक्टूबर 2020 को, यदि विनय ने फर्म को ₹ 1,60,000 का ऋण दिया। वर्तमान लेखा अवधि के लिए रवि को ऋण पर मिलने वाले ब्याज की राशि की गणना करें-

(a) ₹ 9,200 (b) ₹ 8,400

(c) ₹ 6,600 (d) ₹ 4,800

On 01st December 2020, if Ravi advanced a loan of ₹ 30,000 to the firm. Calculate the amount of interest on loan that Ravi will receive for the current accounting period-

(a) ₹ 9,200 (b) ₹ 8,400

(c) ₹ 6,600 (d) ₹ 4,800

भाग-II

खंड-क

Part II

Section-A

निर्देश:

प्रश्न 42 से 48 में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दें।

Instructions:

From question number 42 to 48, attempt any 5 questions.

42. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:

अभिकथन (A) : चालू अनुपात का उद्देश्य यह इंगित करना है कि क्या उद्गम अपने दीर्घकालिक वित्तीय दायित्वों को, जब वे देय होंगे, पूरा करने में सक्षम होगा।

कारण (R) : ऐसा इसलिए है क्योंकि चालू अनुपात, चालू संपत्ति और चालू देनदारियों के बीच संबंध स्थापित करता है।

उपरोक्त दो कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा नहीं है?

- (a) दोनों (A) और (R) सही हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
- (b) दोनों (A) और (R) सही हैं और (R) (A) की सही व्याख्या है।
- (c) दोनों (A) और (R) गलत हैं।
- (d) (A) गलत है, लेकिन (R) सही है।

Given below are two statements, one labelled as Assertion (A) and the other labelled as Reason (R):

Assertion (A): Current Ratio aims to indicate whether the enterprise will be able to meet its Long term financial obligations as and when they become due.

Reason (R): It is because Current ratio establishes the relationship between current assets and current liabilities.

In the context of the above two statements, which of the following is correct?

- (a) Both (A) and (R) are true, but (R) is not the correct explanation of (A).
- (b) Both (A) and (R) are true and (R) is a correct explanation of (A).
- (c) Both (A) and (R) are false.
- (d) (A) is false, but (R) is true.

43. निम्नलिखित में से कौन-से अल्पकालीन शोधन क्षमता अनुपात हैं?

- (i) ऋण अंश अनुपात
- (ii) चालू अनुपात
- (iii) कुल संपत्ति पर ऋण अनुपात
- (iv) त्वरित अनुपात
- (v) सकल लाभ अनुपात

- (a) (i) और (iii) (b) (ii) और (iv)
 (c) (iii) और (iv) (d) (iii) और (v)

Which of the following are Short term Solvency ratios?

- (i) Debt Equity Ratio (ii) Current Ratio
 (iii) Total Assets to Debt Ratio (iv) Quick Ratio
 (v) Gross Profit Ratio

- (a) (i) and (iii) (b) (ii) and (iv)
 (c) (iii) and (iv) (d) (iii) and (v)

44. निम्नलिखित में से कौन कुल ऋण और अंशधारक निधि का योग है:

- (a) गैर चालू संपत्ति (b) कुल ऋण
 (c) विनियोजित पूंजी (d) कुल देयताएं

Which of the following is the aggregate of Total Debts and Shareholders' Funds

- (a) Non Current Assets (b) Total Debts
 (c) Capital Employed (d) Total Liabilities

45. निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

- (i) आदर्श स्वीकृत त्वरित अनुपात 2:1 है।
 (ii) एक उच्च स्टॉक टर्नओवर अनुपात का अर्थ है स्टॉक में निवेश का अक्षम उपयोग और स्टॉक में अधिक निवेश।
 (iii) परिचालन लाभ = प्रचालन से राजस्व - परिचालन लागत।
 (a) (i) और (iii) (b) (ii) और (iii)
 (c) केवल (iii) (d) (i) और (ii)

Which one of the following is correct?

- (i) Ideal accepted Quick Ratio is 2:1.
 (ii) A high inventory turnover ratio means inefficient use of investment in inventory and over investment in stocks.
 (iii) Operating Profit=Revenue from Operations - Operating Cost.

- (a) (i) and (iii) (b) (ii) and (iii)
 (c) Only (iii) (d) (i) and (ii)

46. किस कथन, में प्रत्येक संपत्ति को कुल संपत्ति के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है और प्रत्येक देयता को कुल अंशधारक निधि और देनदारियों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है?

- (a) समान आकार आय विवरण (b) तुलनात्मक तुलन पत्र
 (c) लाभ और हानि का विवरण (d) समान आकार तुलन पत्र

In Which Statement, each asset is expressed as percentage to total asset and each liability is expressed as percentage of total of equity and liabilities?

- (a) Common size income Statements.
 (b) Comparative Balance Sheet.
 (c) Statement of Profit and Loss.
 (d) Common Size Balance Sheet.

47. कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III में परिभाषा के अनुसार कॉलम I में दिए गए मदों को कॉलम II में दिए गए शीर्षकों/उपशीर्षकों (तुलन पत्र) से सुमेलित करें।

	कॉलम I		कॉलम II
(a)	ट्रेडमार्क	(i)	स्कन्ध
(b)	प्रतिभूति प्रीमियम संचय	(ii)	मूर्त अचल संपत्तियाँ
(c)	बैंक ओवरड्राफ्ट	(iii)	अमूर्त अचल संपत्तियाँ
(d)	मोहन वाहन	(iv)	अल्पकालिक उधार
(e)	स्टोर और स्पेयर पार्ट्स	(v)	संचय और अधिशेष

- (a) (a)-(iii), (b)-(i), (c)-(v), (d)-(ii) और (e)-(iv)
 (b) (a)-(iii), (b)-(v), (c)-(iv), (d)-(ii) और (e)-(i)
 (c) (a)-(i), (b)-(iii), (c)-(v), (d)-(iv) और (e)-(ii)
 (d) (a)-(ii), (b)-(i), (c)-(iv), (d)-(iii) और (e)-(v)

Match the items given in Column I with the headings/subheadings (Balance sheet) as defined in Schedule III of Companies Act 2013 in Column II.

	Column I		Column II
(a)	Trademark	(i)	Inventories
(b)	Securities Premium Reserve	(ii)	Tangible Fixed Assets
(c)	Bank Overdraft	(iii)	Intangible Fixed Assets
(d)	Motor Vehicles	(iv)	Short Term Borrowings
(e)	Stores and Spare Parts	(v)	Reserve and Surplus

- (a) (a)-(iii), (b)-(i), (c)-(v), (d)-(ii) and (e)-(iv)
 (b) (a)-(iii), (b)-(v), (c)-(iv), (d)-(ii) and (e)-(i)
 (c) (a)-(i), (b)-(iii), (c)-(v), (d)-(iv) and (e)-(ii)
 (d) (a)-(ii), (b)-(i), (c)-(iv), (d)-(iii) and (e)-(v)

48. कौन सा अनुपात (दीर्घकालिक) शोधन क्षमता अनुपात का भाग नहीं है?

- (a) चालू अनुपात (b) ऋण अंश अनुपात
 (c) स्वामित्व अनुपात (d) कुल संपत्ति पर ऋण अनुपात

Which ratio is not a part of (Long term) Solvency Ratio?

- (a) Current ratio. (b) Debt to Equity Ratio
 (c) Proprietary ratio. (d) Total assets on Debt ratio.

भाग-II

खंड-ख

Part II

Section-B

निर्देश:

प्रश्न 49 से 55 में से किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर दें।

Instructions:

From question number 49 to 55, attempt any 6 questions.

49. तरल अनुपात क्या होगा यदि चालू संपत्ति = ₹ 72,500; स्कन्ध = ₹ 12,500; पूर्वदत्त खर्च = ₹ 15,000; भवन = ₹ 50,000; कार्यशील पूंजी = ₹ 50,000

- (a) 1:1 (b) 2:1
(c) 3:1 (d) शून्य

What will be the Liquid Ratio if Current Assets = ₹ 72,500; Inventories = ₹ 12,500; Prepaid Expenses = ₹ 15,000; Building = ₹ 50,000; Working Capital = ₹ 50,000.

- (a) 1:1. (b) 2:1.
(c) 3:1. (d) Nil.

50. यदि संचालन से नगद आगम, संचालन से कुल आगम का $\frac{1}{4}$ है और संचालन से आगम की लागत = ₹ 2,00,000 है और संचालन से आगम की लागत पर सकल लाभ 25% है। सकल लाभ अनुपात है:

- (a) 15% (b) 20%
(c) 25% (d) 30%

If Cash Revenue from Operations is $\frac{1}{4}$ th of Total Revenue from Operation and Cost of Revenue from Operation is ₹ 2,00,000 and Gross Profit is 25% on Cost of Revenue from Operations. Gross Profit Ratio is:

- (a) 15% (b) 20%
(c) 25% (d) 30%

51. निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है?

- (i) तुलनात्मक वित्तीय विवरण, प्रवृत्ति का सूचक है और पूर्वानुमान लगाने में मदद करता है।
(ii) समरूप वित्तीय विवरण में, 100% को आधार के रूप में लिया जाता है और अन्य सभी संबंधित राशियों को आधार के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है।
(iii) तुलनात्मक वित्तीय विवरण के माध्यम से विश्लेषण को शैतिज विश्लेषण के रूप में भी जाना जाता है।

निम्नलिखित विकल्पों में से चुनें:

- (a) दोनों (i) और (iii) (b) दोनों (ii) और (iii)
(c) दोनों (i) और (ii) (d) सभी सच हैं

Which of the following statements are false?

- (i) Comparative Financial Statement is an indicator of trend and helps in forecasting.
- (ii) In Common Size Financial Statement, 100% is taken as base and all other related amounts are expressed as a percentage of base.
- (iii) Analysis through Comparative Financial Statement is also known as Horizontal Analysis.

Choose from the following Options:

- (a) Both (i) and (iii)
- (b) Both (ii) and (iii)
- (c) Both (i) and (ii)
- (d) All are true

52. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:

अभिकथन (A) : कम कार्यशील पूंजी अनुपात कार्यशील पूंजी के कुशल उपयोग को दर्शाता है।

कारण (R) : कार्यशील पूंजी अनुपात, कार्यशील पूंजी और संचालन से आगम के बीच संबंध स्थापित करता है। यह दर्शाता है कि आगम उत्पन्न करने के लिए इसका कितनी कुशलता से उपयोग किया जाता है।

उपरोक्त दो कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

- (a) दोनों (A) और (R) सही हैं और (R), (A) का सही कारण है।
- (b) दोनों (A) और (R) सही हैं लेकिन (R), (A) की सही कारण नहीं है।
- (c) केवल (R) सही है।
- (d) दोनों (A) और (R) गलत हैं।

Given below are two statements, one labelled as Assertion (A) and the other labelled as Reason (R):

Assertion (A) : A low Working Capital Ratio shows efficient use of working capital.

Reason (R) : Working Capital ratio establishes the relationship between Working capital and Revenue from Operations. It shows how efficiently it is used to generate revenue.

In the context of the above two statements, which of the following is correct?

- (a) Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct reason of (A).
- (b) Both (A) and (R) are correct but (R) is not the correct reason of (A).
- (c) Only (R) is correct.
- (d) Both (A) and (R) are wrong.

53. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:

अभिकथन (A) : एक निम्न ऋण समता अनुपात एक अनुकूल स्थिति को इंगित करता है।

कारण (R) : एक निम्न ऋण समता अनुपात उच्च सुरक्षा कवर को इंगित करता है और यह दर्शाता है कि उद्यम बाहरी इक्विटी की तुलना में अंशधारकों के धन पर अधिक निर्भर है।

उपरोक्त दो कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

- (a) दोनों (A) और (R) सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या करता है।
- (b) दोनों (A) और (R) सही हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।
- (c) दोनों (A) और (R) गलत हैं।
- (d) (A) सही है लेकिन (R) गलत है।

Given below are two statements, one labelled as Assertion (A) and the other labelled as Reason (R):

Assertion (A) : A low Debt Equity ratio indicates a favourable position.

Reason (R) : A low Debt Equity ratio indicates high safety cover and it shows that enterprise is depending more on shareholders funds than external equities.

In the context of the above two statements, which of the following is correct?

- (a) (A) and (R) both are correct and (R) correctly explains (A).
- (b) Both (A) and (R) are correct but (R) does not explain (A).
- (c) Both (A) and (R) are incorrect.
- (d) (A) is correct but (R) is incorrect.

54. एफोन लिमिटेड का चालू अनुपात 2.5:1 है। लेखाकार इसे 2:1 पर बनाए रखना चाहता है। निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध हैं:

- (i) यह विविध लेनदारों को भुगतान कर सकता है।
- (ii) वह उधार पर माल खरीद सकता है।
- (iii) वह बैंक से अल्पकालिक ऋण ले सकता है।

सही विकल्प चुनें।

- (a) केवल (i) सही है।
- (b) केवल (ii) सही है।
- (c) केवल (iii) सही हैं।
- (d) केवल (ii) और (iii) सही हैं।

Quick ratio of Affon Ltd. is 2.5:1. Accountant wants to maintain it at 2:1. Following options are available.

- (i) He can pay off sundry creditors.
- (ii) He can purchase goods on credit
- (iii) He can take short term loan from bank

Choose the correct option.

- (a) Only (i) is correct
- (b) Only (ii) is correct
- (c) Only (iii) are correct
- (d) Only (ii) and (iii) are correct

55. एक कंपनी का संचालन चक्र 14 महीने का होता है। इसमें ₹ 3,00,000 की व्यापार देय राशि है, जिसमें से ₹ 1,00,000 की परिपक्वता अवधि 13 महीने है। यह जानकारी तुलन पत्र में कैसे प्रस्तुत की जाएगी?

- (a) ₹ 1,00,000 चालू देनदारियों के रूप में और ₹ 2,00,000 और गैर-चालू देनदारियों के रूप में।
- (b) ₹ 2,00,000 चालू देनदारियों के रूप में और ₹ 2,00,000 और गैर-चालू देनदारियों के रूप में।
- (c) ₹ 3,00,000 गैर-चालू देनदारियों के रूप में।
- (d) ₹ 3,00,000 चालू देनदारियों के रूप में।

A company has an operating cycle of 14 months. It has trade payables amounting to ₹ 3,00,000 out of which ₹ 3,00,000 have a maturity period of 13 months. How would this information be presented in the balance sheet?

- (a) ₹ 1,00,000 as current liabilities and ₹ 2,00,000 as non-current liabilities.
- (b) ₹ 2,00,000 as current liabilities and ₹ 1,00,000 as non-current liabilities.
- (c) ₹ 3,00,000 as non-current liabilities.
- (d) ₹ 3,00,000 as Current liabilities.